



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2003/पौष 26, 1924

No. 21]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2003/PAUSA 26, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2003

अप्रत्यादेय कर प्रतिपूर्ति योजना, 2002

सं. पी.-20029/18/2001-पी पी.—भारत सरकार, प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था से बाजार निर्धारित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था में सहज परिवर्तन को सुसाध्य बनाने हेतु अप्रत्यादेय राज्य करों के लिए तेल कंपनियों की प्रतिपूर्ति करने हेतु निम्नांकित योजना बनाती है:

1. संक्षिप्त शीर्षक

इस योजना को अप्रत्यादेय कर प्रतिपूर्ति योजना, 2002 कहा जाएगा।

2. प्रारम्भ

यह योजना अप्रैल, 2002 के प्रथम दिवस से लागू होगी।

3. परिभाषाएं

इस योजना के प्रयोजनार्थ:-

(1) तेल शोधन कंपनी का तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जो पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

- करने के लिए कच्चे तेल का संसाधन करने के व्यवसाय में संलग्न है;
- (2) तेल विपणन कंपनी का तात्पर्य एक ऐसी तेल कंपनी से है जो मोटर स्पिरिट (एम एस), हाई स्पीड डीजल (एच एस डी), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी तेल (पी डी एस केरोसीन) तथा गैर-वाणिज्यिक रसोई तैयार करने के लिए प्रयुक्त एल पी जी (घरेलू एल पी जी) के विपणन (उपभोक्ताओं को बेचने) का व्यवसाय करती है।
- (3) अप्रत्यादेय राज्य कर से तात्पर्य एक ऐसे कर से है और इस में निम्न सम्मिलित हैं—
- (क) किसी स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे तेल के प्रवेश पर उद्ग्रहीत कोई कर जिसमें चुंगी सम्मिलित है;
- (ख) पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादों) का विपणन करने वाली किसी तेल कंपनी के बिक्रय कारोबार पर उद्ग्रहीत कर जो विधि द्वारा "कर के रूप में अप्रत्यादेय" घोषित है;
- (ग) उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर कंपनी बिक्रियों पर उद्ग्रहीत किया जाने वाला केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी)/क्रय कर।
- (4) राज्य अधिभार से तात्पर्य किसी राज्य में अप्रत्यादेय राज्य कर की लागत की वसूली करने के लिए उपभोक्ता बिक्री मूल्य के माध्यम से एकत्र की गई राज्य विशिष्ट धनराशि से है।

4. इस योजना के तहत आने वाले अप्रत्यादेय कर:

4.1 इस योजना के तहत निम्नांकित के लिए क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी:-

अनुबंध -1 में दिए गए करों की ऐसी दरों, जो इस अनुबंध में दी गई दरों से अधिक नहीं हैं, पर इस योजना के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व उद्ग्रहीत किए जा रहे:-

- (क) किसी स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे तेल के प्रवेश पर उद्ग्रहीत कर जिसमें चुंगी, उपलब्ध छूट; यदि कोई है, सम्मिलित है; तथा
- (ख) घरेलू रिफाइनरियों के पेट्रोलियम उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अंतर-कंपनी बिक्रय लेन-देन के विषय में उद्ग्रहीत कर नामतया केन्द्रीय बिक्री-कर (सी एस टी) तथा क्रय कर।

4.2 मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, पी डी एस केरोसीन, घरेलू एल पी जी तथा प्रासंगिक अवधि के दौरान कुल उत्पादन के लिए इन उत्पादों के उत्पादन के अनुपात में प्रयुक्त कच्चे तेल पर देय उक्त अप्रत्यादेय करों के लिए प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

- 4.3 ऐसी स्थिति में कि यदि इस योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात कोई नया अप्रत्यादेय कर अधिरोपित किया जाता है अथवा विद्यमान अप्रत्यादेय कर की दर में वृद्धि की जाती है तो अनुबंध-1 में यथा प्रस्तुत ऐसे नए कर अथवा, वर्द्धित दर तथा विद्यमान कर की दर के बीच अंतरीय के लिए कोई प्रतिपूर्ति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

5. प्रतिपूर्ति की दायेदारी के लिए प्रक्रिया

- 5.1 कच्चे तेल पर उद्ग्रहीत अप्रत्यादेय करों के लिए प्रतिपूर्ति की दायेदारी, संबंधित रिफाइनरी का सीधा स्वामित्व रखने वाली तेल कंपनी के द्वारा की जाएगी। उत्पादों पर उद्ग्रहीत अप्रत्यादेय करों के संबंध में प्रतिपूर्ति की दायेदारी उस तेल विपणन कंपनी के माध्यम से की जाएगी जिसके माध्यम से इससे पूर्व खंड 4.2 में उल्लिखित पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन किया जाता है।
- 5.2 किसी तेल विपणन कंपनी के स्वामित्व में किसी तेल रिफाइनरी के उत्पादों पर देय अप्रत्यादेय करों की लागत की प्रतिपूर्ति इस शर्त पर की जाएगी कि ऐसी तेल विपणन कंपनी राज्य विशिष्ट अधिभार की वसूली के द्वारा अपनी तेल रिफाइनरी की अल्प-वसूलियों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगी जैसा कि इस योजना के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व किया जा रहा था।
- 5.3 वसूल की गई राज्य अधिभार धनराशि में से तेल विपणन कंपनियां प्रथमतः अनुबंध-2 में दी गई ऐसी दरों, जो इस योजना के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रचलित दरों से अधिक नहीं है, पर परिकलित अप्रत्यादेय करों के कारण हुई अपनी निजी अल्प-वसूलियों को पूरा करेंगी। शेष धनराशि में से तेल विपणन कंपनियां इससे पूर्व खण्ड 4.1 (ख) में बताई गई अल्प वसूलियों को पूरा करेंगी तथा इस खंड के तहत प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की शेष जरूरत, यदि कोई है, इस योजना से पूरी की जाएगी।
- 5.4 इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए दावा अनुबंध-3 पर दिए गए फार्म में अनुवर्ती द्वितीय माह की 10 तारीख तक (अर्थात् अप्रैल से संबंधित दावा 10 जून तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पेट्रो और प्रा. गैस मंत्रालय) के अधीन पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पी पी ए सी) को प्रस्तुत किया जाएगा।

6. प्रतिपूर्ति का निपटान

- 6.1 पी पी ए सी ऐसे दावे की जांच करेगा और इसे उस माह, जिसमें यह प्राप्त किया गया है, की 25 तारीख तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अग्रेसित करेगा। इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति हेतु पात्र धनराशि का भुगतान इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध बजट अनुदानों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- 6.2 ऐसे मामलों में, जहां इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति की दायेदारी कर रिटर्न भरने के पूर्व अप्रत्यादेय कर की ओर भुगतान की गई धनराशि के आधार पर की गई है, ऐसी कंपनी उस अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई है, के संबंध में कर रिटर्न भरने के एक माह के भीतर ऐसी कर रिटर्न

की एक प्रमाणित प्रति के साथ अनुबंध-4 पर दिए गए फार्म में पी पी ए सी को एक विवरण प्रस्तुत करेगी। जहां यह रिटर्न अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में भरी जाती है, वहां मूल प्रति के साथ साथ इस रिटर्न का प्रमाणित अंग्रेजी रुपान्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

6.3 इससे पूर्व खंड 6.2 में संदर्भित विवरण से व्युत्पन्न होने वाला कोई समायोजन उस माह, जिसमें ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता है, के अनुवर्ती माह में किया जाएगा।

6.4 इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति की दायेदारी करने वाली तेल कंपनी से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने तथा ऐसे अभिलेखों के निरीक्षण के लिए इसे उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाएगी जैसी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अथवा लेखा परीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नामित एजेन्सी/प्राधिकारी को जरूरत हो।

6.5 वित्तीय वर्ष से संबंधित अंतिम दावों का निपटान लेखा परीक्षा के पश्चात किया जाएगा।

7. करार

इस योजना में प्रतिभागिता करने वाली कंपनियों को इस योजना की शर्तों का पालन करने के लिए सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा होगी।

8. विवाद समाधान

इस योजना के किसी भी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई भी विवाद सरकार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भेजा जाएगा और उस पर दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

9. वैधता

यह योजना वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान चलाई जाएगी।

10. विविध

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सार्वजनिक हित में स्पष्टीकरण अथवा ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी जो इस योजना के सहज क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों।

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध-1

रिफाइनरियों/रिफाइनरी प्रेषणों पर लागू अप्रत्यादेय करों को दर्शाने वाली तालिका

रिफाइनरी का नाम	कूड		उत्पाद
	प्रवेश कर	चुंगी	के.बि.कर/खरीद कर #
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
आईओसीएल			
1 पानीपत	4.00		4.00
2 मथुरा	3.00		4.00
3 कोयाली			4.00
4 हल्दिया			4.00
5 बरौनी	2.00		4.00
6 गुवाहाटी			4.00
7 डिग्बोई			4.00
आईओसीएल सहायक कंपनियां			
8 बोंगाईगांव (बीआरपीएल)			4.00
9 चेन्नई (सीपीसीएल)			4.00
10 नरीमनम (सीपीसीएल)			4.00
एचपीसीएल			
11 मुंबई		2.25	4.00
12 विसाख			4.00
एचपीसीएल संयुक्त उद्यम			
13 मंगलौर (एमआरपीएल)	2.00		4.00
बीपीसीएल			
14 मुंबई		2.25	4.00
बीपीसीएल सहायक कंपनियां			
15 कोच्चि (केआरएल)			4.00
16 नुमालीगढ़ (एनआरएल)			4.00
आरपीएल			
17 जामनगर			4.00

खरीद कर पर 4 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा।

टिप्पणी:

योजना के तहत क्षतिपूर्ति, करों से होने वाली कम वसूलियों और इस तालिका में दी गई दरों से अनधिक दरों तक सीमित होगी। टैप आफ केन्द्रों/डिपुओं पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की कम वसूलियों की स्थिति में इसकी तब क्षतिपूर्ति की जाएगी यदि उत्पाद ने रिफाइनरियों से प्रेषण के समय कम वसूलियां उपगत न की हों।

अनुबंध-2

तेल विपणन कंपनियों द्वारा देय अप्रत्यादेय योग्य करों को दर्शाने वाली तालिका

राज्य का नाम	अप्रत्यादेय योग्य कर	दर (प्रतिशत)
आंध्र प्रदेश	एमएस/एचएसडी पर कारोबार कर	2.00
बिहार/झारखंड	बिक्री कर पर अधिभार + अतिरिक्त कर	10.00
बीएमसी	उत्पादों पर चुंगी	2.25
गोवा	बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	25.00
गुजरात	एमएस/एचएसडी पर कारोबार कर	2.00
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	एलपीजी टर्मिनल कर	रु. 15/एमटी
नवी मुंबई	एमएस/एचएसडी पर उपकर	1 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत *
उड़ीसा	बिक्री कर पर अधिभार	10.00
त्रिपुरा	अतिरिक्त कर	0.50
तमिलनाडु	एचएसडी पर प्रवेश कर एसकेओ/एलपीजी पर अतिरिक्त कर	18.00 3.00
पश्चिम बंगाल	एमएस/एचएसडी बिक्री कर पर अतिरिक्त कर	20.00

* नगरपालिका सीमाओं के भीतर बिक्री के लिए दर 1 प्रतिशत है और बाहर बिक्री के लिए 0.1 प्रतिशत है।

अनुबंध-3

फॉर्म 1 : मासिक दावा आरूप

लेखापरीक्षित सारांश पत्र

तेल कंपनी:	
दावा किस माह/तिमाही के लिए है:	वर्ष:
विवरण	माह/तिमाही लाख रुपए
निम्न से प्रेषणों के लिए दावे (भाग क-संलग्नक)	
रिफाइनरी 1	
रिफाइनरी 2	
.....	
कुल दावे	
निवल एकत्रित अधिभार (भाग ख-संलग्नक)-	
योजना के तहत दावे	
मासिक विवरण के माध्यम से समायोजित धनराशि	
दावा किया गया/समायोजित शेष	

सही प्रमाणित किए गए दावे: _____

पदनाम, विभाग,
नाम _____ तेल कंपनी की ओर से

लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर (सभी संलग्न विवरणों को प्रमाणित किया जाना है)- तिमाही रूप से दिया जाए

हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही और पे. और प्रां. गै. मं. के दिनांक _____ के पत्र संख्या _____ के अनुरूप पाया है।

हस्ताक्षर, नाम और लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या

भाग क - संलग्नक

तेल कंपनी
माह:

रिफाइनरी का नाम (जहां से उत्पाद प्रेषित किए गए):
वर्ष:

राज्य	किस मात्रा पर कम वसूली हुई मी.ट./कि.ली.	कर के लिए निर्धारण योग्य मूल्य रु./एसयू	कर की दर प्रतिशतता		मूल्य 000 रुपए
आनुपातिक आधार पर प्रवेश कर/चुंगी					
क्रुड 1					
क्रुड 2					
कुल कर के बिक्री कर/क्रय कर अप्रत्यादेय					
एमएस					
एचएसडी					
एसकेओ					
एलपीजी					
योग					
रिफाइनरी का योग	मात्रा				मूल्य

टिप्पणियां:

- (1) कर की दर निर्धारित करते हुए अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।
- (2) प्रत्येक उत्पाद के लिए निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित तत्वों को इंगित करें (जहां कहीं एक ही उत्पाद के लिए एक से अधिक निर्धारण योग्य मूल्य हो, वहां ब्यौरा संलग्नक में दिया जाना चाहिए)
- (3) इस बात का प्रमाण संलग्न करें कि प्रतिपूर्ति के लिए दावा किए गए कर/उद्ग्रहण का भुगतान कर दिया गया है/भुगतान कर दिया गया मान लिया गया है।

दावे सही पाए गए: _____

पदनाम, विभाग,
नाम _____ तेल कंपनी की ओर से

लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर (सारे संलग्न विवरण प्रमाणित किए जाने हैं)- तिमाही रूप से दिया जाए

हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही पाया है और इन्हें पे. और प्रा.गै.मं. के दिनांक _____ के पत्र संख्या _____ के अनुरूप पाया है।

लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर, नाम और सदस्यता संख्या

**भाग ख : तेल कंपनी अधिभार संग्रहण (सहायक कंपनी सहित)-
संलग्नक**

तेल कंपनी:

माह:

वर्ष:

राज्य	बिक्री इकाइयों में मात्रा				मूल्य 000 रुपए				
	एमएस	एचएसडी	एसकेओ	एलपीजी	एमएस	एचएसडी	एसकेओ	एलपीजी	योग
राज्य 1									
राज्य 2									
.....									
कंपनी का योग									
घटाएं: अनुबंध-2 के अनुसार विपणन अल्प वसूली									
निवल अधिभार संग्रहण									

टिप्पणियां : अधिभार की दरें उत्पाद वार, राज्य वार संलग्न करें

दावे सही पाए गए: -----

पदनाम, विभाग,
नाम ----- तेल कंपनी की ओर से

लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर (सारे संलग्न विवरण प्रमाणित किए जाने हैं)- तिमाही रूप से दिया जाए

हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही पाया है और इन्हें पे. और प्रा.गै.मं. के दिनांक ----- के पत्र संख्या ----- के अनुरूप पाया है।

लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर, नाम और सदस्यता संख्या

अनुबंध-4

फार्म-2

कर के प्रतिलाभ के दाखिल करने के बाद दाखिल किया जाने वाला विवरण

- क. क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त धनराशि 000 रुपए
 माह/तिमाही 1
 माह/तिमाही 2

 प्राप्त कुल राशि
- ख. कर रिटर्न के अनुसार धनराशि
- ग. अन्तर

दावे/अभ्यर्पण सही पाए गए: -----

पदनाम, विभाग
 नाम तेल कंपनी (संबद्ध कंपनी) की ओर से

लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर (सारे संलग्न विवरण प्रमाणित किए जाने हैं)- तिमाही रूप से दिया जाए

हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही पाया है और इन्हें पे. और प्रा.गै.मं. के दिनांक ----- के पत्र संख्या ----- के अनुरूप पाया है।

लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर, नाम और सदस्यता संख्या

भाग ग : संबद्ध कंपनियों के लिए संलग्नक

(प्रत्येक संबद्ध कंपनी के लिए अलग पत्रक भेजा जाए)

सारांश पत्रक

तेल कंपनी:

संबद्ध कंपनी/रिफाइनरी:

दावा किस माह/तिमाही के लिए है:

वर्ष:

विवरण	माह/तिमाही लाख रुपए
दावे (भाग क की तरह)	
रिफाइनरी	
कुल दावे	
संग्रहीत राज्य अधिभार (भाग ख की तरह)-अनुबंध-2 के अनुसार विममन अल्प वसूलियों को छोड़कर	
कुल दावा/अभ्यर्पण (संबद्ध कंपनी के प्रति लेखापरीक्षित सारांश पृष्ठ में दिखाया गया)	

दावा/अभ्यर्पण सही पाया गया: -----

पदनाम, विभाग

नाम तेल कंपनी (संबद्ध कंपनी) की ओर से

दावे स्त्यापित: --- (यदि रिफाइनरी से उठाई गई मात्राओंसे संबंधित हो) -----

पदनाम, विभाग

नाम तेल कंपनी की ओर से

लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर (सारे संलग्न विवरण प्रमाणित किए जाने हैं)- तिमाही रूप से दिया जाए

हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही पाया है और इन्हें पे. और प्रा.गै.मं. के दिनांक ----- के पत्र संख्या ----- के अनुरूप पाया है।

लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर, नाम और सदस्यता संख्या

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2003

The Irrecoverable Taxes Compensation Scheme, 2002

No. P-20029/18/2001-PP.— The Government of India are pleased to make the following scheme for compensating the oil companies for irrecoverable state taxes to facilitate smooth transition from the administered pricing regime to the market determined pricing regime:

1. Short title

This scheme may be called the Irrecoverable Taxes Compensation Scheme 2002.

2. Commencement

This scheme will come into effect from 1st day of April 2002.

3. Definitions

For the purposes of this scheme –

- (i) **Oil refining company** means a company engaged in the business of processing of crude oil for producing petroleum products;

- (ii) **Oil marketing company** means an oil company undertaking marketing (selling to consumers) of motor spirit (MS), high speed diesel (HSD), kerosene under the public distribution system (PDS Kerosene) and LPG used for non-commercial cooking (domestic LPG).
- (iii) **Irrecoverable state tax** means and includes: -
 - (a) a tax levied on entry of crude oil in a local area including octroi;
 - (b) a tax levied on the sales turnover of an oil company marketing petroleum product(s) declared by law to be "irrecoverable as tax";
 - (c) central sales tax (CST)/purchase tax levied on inter company sales of petroleum products for moving the products inter-state.
- (iv) **state surcharge** means the state specific amount collected through the consumer selling price in a state to recover the cost of irrecoverable state tax.

4. Irrecoverable taxes covered under the scheme

4.1 Compensation under the scheme will be provided for: -

- (a) tax levied on the entry of crude oil in a local area including octroi, net of set off available, if any; and
- (b) tax levied on inter-company sale transactions for moving petroleum products of domestic refineries inter state namely, central sales tax (CST) and purchase tax.

being levied immediately prior to the commencement of this scheme, given in Annexure-I at the rates not exceeding the rates given in that Annexure.

4.2 Compensation will be provided for the aforesaid irrecoverable taxes payable on motor spirit, high speed diesel, PDS kerosene, domestic LPG, and on crude oil used in proportion to the production of these products to the total production during the relevant period.

4.3 If any new irrecoverable tax is imposed or the rate of an existing irrecoverable tax is enhanced after the commencement of this scheme, no compensation will be provided for such new tax or for the differential between the enhanced rate and the rate of an existing tax as given in Annexure-I.

5. Procedure for claiming compensation

5.1 Compensation for irrecoverable taxes levied on crude oil will be claimed by the oil company owning the refinery directly. In respect of irrecoverable taxes levied on products, compensation will be claimed through the oil marketing company through whom the petroleum products mentioned in clause 4.2 hereinbefore are marketed.

5.2 The cost of irrecoverable taxes payable on the products of an oil refinery owned by an oil marketing company will be compensated subject to the condition that such oil marketing company will make best endeavor to make up the under-recoveries of its oil refinery by collecting the state specific surcharge as was being done immediately prior to the commencement of this scheme.

5.3 Out of the collected state surcharge amount, the oil marketing companies will first set off their own under-recoveries on account of irrecoverable taxes, computed at the rates not exceeding the rates prevalent immediately prior to the commencement of the scheme, given in Annexure-II. From the remaining amount, the oil marketing

companies will meet the under-recoveries stated in clause 4.1 (b) hereinbefore and the balance requirement of amount, if any, for compensation under this clause will be met from the scheme.

- 5.4** Claim for compensation under the scheme will be presented in Form I given at Annexure-III to the Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) under the Ministry of Petroleum & Natural Gas (MOP&NG) by the 10th of the second following month (e.g., claim pertaining to April will be submitted by 10th June).

6. Settlement of compensation

- 6.1** The PPAC will scrutinize and forward the claim to MOP&NG by 25th of the month in which the claim has been received. The eligible amount for compensation under the scheme will be paid by MOP&NG from the budget grants available for the purpose.
- 6.2** In cases where compensation under the scheme has been claimed on the basis of amount paid towards irrecoverable tax before filing of the tax return, the company shall, within one month of the filing of the tax return in respect of the period for which compensation has been received, submit to the PPAC a statement in form II given at Annexure IV along with a certified copy of the tax return. Where the return is filed in a language other than English, a certified English version of the return along with a copy of the original, will be submitted.
- 6.3** Any adjustment arising from the statement referred to in clause 6.2 hereinbefore, will be made in the month following the month in which such statement is submitted.
- 6.4** An oil company claiming compensation under the scheme will be required to submit such information and make available for inspection such records as may be required by MOP&NG or the agency/authority nominated by the Government for carrying audit.

6.5 The final claims for the financial year will be settled after audit.

7. Agreement

The companies participating in the scheme will be required to sign an agreement with the Government for abiding with the terms and conditions of the scheme.

8. Dispute resolution

Any dispute in regard to interpretation of any of the provisions of this scheme will be referred to the Government in MOP&NG and the decision thereon shall be final.

9. Validity

This scheme will be operated during the financial year 2002-03.

10. Miscellaneous

MOP&NG shall have the power to issue clarifications or such directions in public interest as may be necessary for smooth implementation of the scheme.

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.

ANNEXURE-I**Table Showing Irrecoverable Taxes Applicable to Refineries/Refinery Despatches.**

Refinery Name	Crude		Products
	Entry Tax	Octroi	CST/Purchase Tax #
	%	%	%
<u>IOCL</u>			
1 Panipat	4.00		4.00
2 Mathura	3.00		4.00
3 Koyali			4.00
4 Haldia			4.00
5 Barauni	2.00		4.00
6 Guwahati			4.00
7 Digboi			4.00
<u>IOCL Subsidiaries</u>			
8 Bongaigaon (BRPL)			4.00
9 Chennai (CPCL)			4.00
10 Narimanam (CPCL)			4.00
<u>HPCL</u>			
11 Mumbai		2.25	4.00
12 Visakh			4.00
<u>HPCL Joint Venture</u>			
13 Mangalore (MRPL)	2.00		4.00
<u>BPCL</u>			
14 Mumbai		2.25	4.00
<u>BPCL Subsidiaries</u>			
15 Kochi (KRL)			4.00
16 Numaligarh (NRL)			4.00
<u>RPL</u>			
17 Jamnagar			4.00

Purchase tax will be considered for reimbursement upto 4%.

Note:

Compensation under the scheme shall be limited to the under-recoveries arising from the taxes and at rates not exceeding the rates given in this table. In case of CST under recoveries incurred at the tap off points/depots, the same would be compensated provided the product has not incurred under recoveries at the time of despatch from refineries.

ANNEXURE-II**Table Showing Irrecoverable Taxes Payable by Oil Marketing Companies**

	State Name	Irrecoverable taxes	Rate (%)
Andhra Pradesh		Turnover Tax on MS/HSD	2.00
Bihar/Jharkhand		Surcharge on Sales tax + Additional tax	10.00
BMC		Octroi on products	2.25
Goa		Additional Tax on Sales Tax	25.00
Gujarat		Turnover Tax on MS/HSD	2.00
Madhya Pradesh/Chattisgarh		Terminal tax on LPG	Rs. 15/MT
Navi Mumbai		Cess on MS/HSD	1% & 0.1%*
Orissa		Surcharge on Sales Tax	10.00
Tripura		Additional Tax	0.50
Tamil nadu		Entry tax on HSD	18.00
		Additional Tax on SKO/LPG	3.00
West Bengal		Additional Tax on Sales Tax on MS/HSD	20.00

* The rate is 1% for sales within municipal limits and 0.1% for sales outside.

Annexure-III

Form I : Monthly Claim Format

Audited Summary Sheet

Oil company:

Claim for the month/quarter:

Year:

Particulars	Month/Quarter
	Rs Lakh
Claims for despatches from (Part A-Attachment)	
Refinery 1	
Refinery 2	
.....	
Total claims	
Net surcharge collected (Part B-Attachment)-	
Claims under the scheme	
Amount adjusted through monthly statement	
Balance claimed / adjusted	

Claims certified to be correct: _____

Designation, Department,

On behalf of oil company flame

Auditors Certificate & Signature (all attached statements to be certified)- to be given quarterly

We have examined the above statements and found it to be correct and in accordance with the MOP&NG letter No. _____ dated _____

Signature, name & membership number of Auditor

Part A- Attachment**Oil company:** _____ **Refinery name (products despatched from):** _____**Month:** _____ **Year:** _____

States		Qty. on which under recovery suffered MT/KL	Assessable Value for tax Rs/SU	Rate of tax % age		Value Rs 000
Entry taxes/Octroi/ proportionate basis on						
Crude 1						
Crude 2						
Total						
Irrecoverable taxes CST/Purchase Tax						
MS						
HSD						
SKO						
LPG						
Total						
Total for the Refinery		Quantity				Value

Notes:

- (i) Attach copy of notification prescribing rate of tax.
- (ii) Indicate elements included in assessable value for each product (where there are more than one assessable value for the same product, details may be shown in an enclosure)
- (iii) Attach proof that tax/levy claimed for reimbursement, has been paid/deemed to have been paid.

Claims certified to be correct: _____**Designation, Department,****On behalf of oil company** _____ **Name** _____**Auditors Certificate & Signature (all attached statements to be certified)-to be given quarterly**

We have examined the above statements and found it to be correct and in accordance with the MOP&NG letter No. _____ dated _____

Signature, name & membership number of Auditor

**Part B :Oil Company Surcharge Collection (including subsidiary company)-
Attachment**

Oil company:

Month:

Year:

States	Quantity In selling units				Value				
					Rs 000				
	MS	HSD	SKO	LPG	MS	HSD	SKO	LPG	Total
State 1									
State 2									
.....									
Total for the Company									
Less: Marketing under recoveries as per Annexure-II									
Net Surcharge collections									

Notes: Attach rates of surcharge product wise, state wise.

Claims certified to be correct: _____

Designation, Department,

On behalf of oil company _____ Name _____

Auditors certificate & signature (all attached statements to be certified)-to be given quarterly

We have examined the above statements and found it to be correct and in accordance with the MOP&NG letter No. _____ dated _____

Signature, name & membership number of Auditor

Annexure-IV**Form II****Statement to be filed after filing of tax return**

A. Amount received as compensation Rs 000

Month/Quarter 1

Month/Quarter 2

.....

Total amount received

B. Amount as per tax return

C. Differential

Claims/Surrenders certified to be correct: _____

Designation, Department,

On behalf of oil company (associated Company) _____ Name _____

Auditors Certificate & Signature (all attached statements to be certified)-to be given quarterly

We have examined the above statements and found it to be correct and in accordance with the MOP&NG letter No. _____ dated _____

Signature, name & membership number of Auditor

Part C :Attachment for Associated Co.s
(Separate sheet to be submitted for each Associated Co.)

Summary Sheet

Oil Company: _____ **Associated Co. / Refinery:** _____

Claim for the Month/Quarter: _____ **Year:** _____

Particulars	Month/Quarter
	Rs Lakh
Claims (same as Part A)	
Refinery	
Total claims	
State surcharges collected (same as Part B) – Net of marketing under recoveries as per Annexure-II	
Total Claim/Surrender (Shown in Audited Summary Sheet against Associated Co.)	

Claims/Surrenders certified to be correct: _____

Designation, Department,

On behalf of oil company (associated Company) _____ Name _____

Claims verified: _____ (In case relate to quantities uplifted from refinery) _____

Designation, Department,

On behalf of oil company _____ Name _____

Auditors Certificate & Signature (all attached statements to be certified)-to be given quarterly

We have examined the above statements and found it to be correct and in accordance with the MOP&NG letter No. _____ dated _____

Signature, name & membership number of Auditor